



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137]
No. 137]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1981/चैत्र 7, 1903
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1981/CHAITRA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अभिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1981

का. जा. 233(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर 28 मार्च, 1981 से मध्य प्रदेश में शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी तथा गुना जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-25/79-आर. आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th March, 1981

S.O. 233(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act,

1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by State Bank of India, establishes, with effect from the 28th March, 1981 a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Shivpuri and Guna in the State of Madhya Pradesh.

[No. F. 1-25/79-RRB(I)]

का. जा. 234(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श करके, शिवपुरी को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-25/79-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 234(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), The Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Shivpuri as the place where Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-25/79-RRB(II)]

का. जा. 235(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उप-खंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-

खंड के प्रयोजनों के लिए, शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अभिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-25/79-आर. आर. बी. (3)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 235(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank, Shivpuri being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-25/79-RRB(III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष

अभिसूचना

बम्बई, 28 मार्च, 1981

का. आ. 236(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के

अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी, (मध्य प्रदेश)”

[आर. पी. सी. सी. संख्या 210/आईएनसीएल/311-81]

एम. बी. हाटे, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT CELL

NOTIFICATION

Bombay, the 28th March, 1981

S.O. 236(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank, Shivpuri (M.P.)”

[RPCC. No. 210/INCL/311-81]

M. V. HATE, Executive Director